



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4807]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940

No. 4807]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 2018/AGRAHAYANA 13, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

का.आ.6033(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 26 क, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 26 क और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यायालयों के ऊपर अधिकारिता रखने वाले माननीय उच्च न्यायालयों के संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा उल्लिखित संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उपरोक्त अधिनियमों के अधीन उक्त न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है :-

सारणी

क्रम सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सेशन न्यायाधीश, बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य
2.	प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, सिक्कासा	संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव
3.	जिला न्यायाधीश-1 और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय, पणजी	गोवा राज्य

[फा. सं. 10/49/2017-पीएम]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2018

S. O. 6033(E)— In exercise of the powers conferred by section 26A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 26A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 22C of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government, after obtaining the concurrence of the respective Chief Justices of the Hon'ble High Courts having jurisdiction over the courts mentioned in column (2) in the Table below, hereby designates the said Courts as Special Courts under the aforesaid Acts to exercise jurisdiction in the respective States or Union Territories, as mentioned in corresponding entry in column (3):

TABLE

S. No.	Existing court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1.	Sessions Judge, Bilaspur	State of Chhattisgarh
2.	Court of Principal District and Sessions Judge, Union territory of Dadra and Nagar Haveli at Silvassa	Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
3.	Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Panaji	State of Goa

[F.No.10/49/2017-PM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)